



सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग

प्रेस विज्ञप्ति

राँची, दिनांक-12.05.2018

• जिले के हर क्षेत्र में नियमित जलापूर्ति सुनिश्चित हो- राय महिमापत रे, उपायुक्त राँची- राँची के उपायुक्त श्री राय महिमापत रे ने जिले के हर क्षेत्र में नियमित जलापूर्ति सुनिश्चित करने हेतु संबंधित पेयजल एवं स्वच्छता विभाग तथा नगर निगम के पदाधिकारी के साथ बैठक की। उपायुक्त ने शहर के विभिन्न हिस्सों के लिए बनाये गए शिड्यूल के अनुसार जलापूर्ति नहीं होने पर नाराजगी जाहिर करते हुए इसे प्राथमिकता के आधार पर करने का निदेश दिया। बैठक में उपस्थित पदाधिकारियों द्वारा बताया गया कि यदि विद्युत आपूर्ति आधे घण्टे के लिए भी बाधित हो जाती है तो जिन इलाको में पानी सप्लाई के समय बिजली रहती है वहाँ के लोग मोटर से सप्लाई पानी खींच लेते हैं और सभी लोगों तक पर्याप्त जलापूर्ति नहीं हो पाती है। पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल, रुक्का के कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि नया अर्वन वाटर प्रोजेक्ट शुरू हो चुका है लेकिन प्रारंभ में उसमें खराबी आ जाने के कारण 36 घण्टे तक उस वाटर प्रोजेक्ट से जलापूर्ति नहीं हो सकी। अब उसकी मरम्मत कर ली गई है और रुक्का से निर्वाध जलापूर्ति संभव हो सकेगी।

उपायुक्त ने बैठक में उपस्थित पदाधिकारियों को निदेश दिया कि बढ़ती गर्मी को देखते हुए जलापूर्ति से संबंधित सभी समस्याओं का तत्काल समाधान करना सुनिश्चित करें। मोटर से लोग पानी न खींचे इसके लिए कार्यपालक अभियंता विद्युत को निदेश दिया गया कि पानी सप्लाई के समय उन क्षेत्रों की बिजली काट ली जाय। उपायुक्त श्री रे ने नगर निगम के पदाधिकारियों को निदेश दिया कि कन्ट्रोल रूम को और ज्यादा सुचारु किया जाए। वहाँ आने वाली हर शिकायत संख्या उपलब्ध करायी जाए ताकि समस्या का समाधान न होने पर वह वरीय पदाधिकारियों से सम्पर्क स्थापित कर सके। उपायुक्त ने कहा कि जब तक गर्मी रहेगी जलापूर्ति से संबंधित समीक्षा बैठक हर हफ्ते की जाएगी।

आज कि बैठक में श्रीमती अंजली यादव, एसडीओ, राँची, श्री अंजनी कुमार मिश्र, अपर समाहर्ता राँची, राँची नगर निगम के पदाधिकारी, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल गोन्दा, बूटी, रुक्का, हटिया तथा पूर्वी एवं पश्चिमी प्रमण्डल के कार्यपालक अभियंता एवं अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।